

## राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन

स्रोत: पी. आई. बी.

हाल ही में नीतिआयोग के एक बयान के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की वित्तीय अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के तहत सरकार द्वारा **3.85 लाख करोड़ रुपए** की संपत्तिका मुद्राकरण किया गया है।

- नीतिआयोग को राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है।

### राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (NMP) क्या है?

#### परिचय:

- NMP में चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25) में सड़क, रेलवे, बजिली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्राकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है।
- NMP के माध्यम से मुद्राकरण में केवल मुख्य परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के वनिविश के माध्यम से मुद्राकरण को छोड़कर।
  - फलिहाल केवल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के CPSE की परिसंपत्तियों को ही इसमें शामिल किया गया है।
- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये भूमि, रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचे सहित गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्राकरण को नविश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) से वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises- DPE) को स्थानांतरित किया जा रहा है।
- इस पाइपलाइन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025 तक छह वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) के तहत नविश का समर्थन करना है।
- NMP की समय-सीमा रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) के अंतर्गत शेष अवधि के साथ समाप्त होने के लिये निर्धारित की गई है।

#### NMP की स्थिति:

- NMP के तहत पहले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 तक कुल लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ रुपए के स्थान पर 2.30 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले, जो सभी चार वर्षों में सर्वाधिक है, उपलब्ध लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए रही है।
  - इसके अतिरिक्त, यह वर्ष 2023-24 का लक्ष्य वर्ष 2021-22 की उपलब्धि का लगभग 159% दर्शाता है।
- सभी मंत्रालयों द्वारा अपने मुद्राकरण लक्ष्यों का 70% प्राप्त कर लिया है, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय वर्ष 2023-24 में 97,000 करोड़ रुपए की कुल उपलब्धि के साथ शीर्ष दो उपलब्धि प्राप्त करने वाले मंत्रालय हैं।

#### NMP की आवश्यकता:

- अतर्पणीकरण:** अधिकांश सरकारी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपात शायद ही कभी देखा जाता है, जिसके कारण उनमें **अतर्पणीकरण** हो जाता है।
- संसाधन अनुकूल:** NMP का उद्देश्य परियोजना की आवश्यकताओं के साथ संसाधनों का बेहतर मिलाप करने के लिये **बाज़ार-संचालित वधियों** को अपनाकर संसाधनों के उपयोग में सुधार लाना, वलिंब और लागत वृद्धि को कम करना है।
- समन्वय संबंधी चुनौतियाँ:** NMP बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु **सरकारी विभागों और नज़ि फर्मों के बीच टीमवर्क को बढ़ावा** देता है।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** NMP **पीएम गति शक्ति** से जुड़ता है, जिसका उद्देश्य भारत के बुनियादी ढाँचे को व्यापक रूप से विकसित करना है, जबकि NMP मौजूदा परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर नवीन परियोजनाओं के लिये धन एकत्रित करने का प्रयास करता है।
- कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों का उपयोग:** NMP का उद्देश्य **अनुत्पादक सरकारी परिसंपत्तियों को बेचकर** नए बुनियादी ढाँचे के लिये धन एकत्रित करना और हरित परियोजनाओं का वसितार करना है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. भारत में, "पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर" पदबंध कसिके प्रसंग में प्रयुक्त कथिा जाता है: (2020)

- (a) डजिटिल सुरक्षा आधारभूत संरचना
- (b) खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना
- (c) स्वास्थय देखभाल और शक्तिषा आधारभूत संरचना
- (d) दूरसंचार और परविहन आधारभूत संरचना

उत्तर: (a)

**??????????:**

प्रश्न.1 शर्म-प्रधान नरियातों के लक्ष्य प्राप्त करने में वनिरिमाण क्षेत्रक की वफिलता का कारण बताइये। पूंजी-प्रधान नरियातों की अपेक्षा अधिक शर्म-प्रधान नरियातों के लथि, उपायों को सुझाइये। (2017)

प्रश्न. 2 हाल के समय में भारत में आर्थकि संवृद्धि की प्रकृति का वरणन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर कथिा जाता है। कथिा आप इस वचिार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजथि। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/national-monetisation-pipeline-4>

